

EMERALD LEISURES LTD.

**CLUB e
EMERALD**

Premier Leisure Club
"Where Dreams Come Alive"

CLUB EMERALD SPORTS COMPLEX

Regd. Off : Plot No. 366/15, Swastik Park
Near Mangal Anand / Sushrut Hospital,
off E. Express Highway, Chembur,
Mumbai, 400 071. India.

t : +91 22 4956 5800

e : info@clubemerald.in

w : www.clubemerald.in

CIN: L74900MH1948PLC006791

11th October, 2024

Ref no.: VFSPL/MB/RI/SGL/2024/04

To,
BSE Limited
Listing Operations
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001,
Maharashtra, India.

Dear Sir/Madam,

Sub.: Submission of Basis of Allotment Advertisement.

Ref.: Rights Issue of Equity Shares of Emerald Leisures Limited (the "Company").

This has reference to the captioned Rights Issue in respect of which the Company had filed a Letter of Offer dated September 9, 2024 ("LOF") with the BSE Limited and the Securities and Exchange Board of India. The captioned Issue opened for subscription on Tuesday, September 17, 2024, and closed on Monday, September 30, 2024.


In this regard, this is to inform you that the basis of the allotment advertisement dated October 11, 2024, in terms of regulation 92 of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended, has been published in the following newspapers on October 11, 2024:

1. Financial Express - (English) National daily - All Editions.
2. Jansatta - (Hindi) National Daily - All Editions.
3. Financial Express - (Gujarati) Regional Daily - Ahmedabad Edition.

We are submitting herewith the newspaper clipping. Kindly take the same on your records and acknowledge the receipt.

Thanking you,
Yours sincerely,

For Emerald Leisures Limited


Kapil M Purohit
Company Secretary



Enclosed: As above

NOTICE

NOTICE is hereby given that Pursuant to Regulation 59(A) of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 and Para 5.1 of SEBI Master circular no. SEBI/HO/IMD/IMD-PoD-1/P/CIR/2024/90 dated June 27, 2024, the half-yearly statement of scheme portfolio for the half year ended September 30, 2024, is hosted on the website of the Kotak Mahindra Mutual Fund viz. www.kotakmf.com and on the website of AMFI viz. www.amfiindia.com.

The unitholders can also submit a request for a physical or electronic copy of the half-yearly statement of scheme portfolio by sending a SMS through registered mobile number on 9167573281 or by calling on 18003091490 / 044-40229101 or by sending an email to mutual@kotak.com or by writing a letter to Kotak Mahindra Asset Management Company Ltd, at the address mentioned below.

For Kotak Mahindra Asset Management Company Limited
Investment Manager – Kotak Mahindra Mutual Fund

Mumbai
October 10, 2024

Sd/
Authorised Signatory

Any queries / clarifications in this regard may be addressed to:
Kotak Mahindra Asset Management Company Limited

CIN: U65991MH1994PLC080009 (Investment Manager for Kotak Mahindra Mutual Fund) 6th Floor, Kotak Towers, Building No. 21, Infinity Park, Off: Western Express Highway, Goregaon - Mulund Link Road, Malad (East), Mumbai 400097. Phone Number: 18003091490 / 044-40229101 • Email: mutual@kotak.com • Website: www.kotakmf.com

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.



TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED

Registered Office: 9th Floor, Nirmal Building, Nariman Point, Mumbai 400 021. Tel: +91 22 6778 9595 Fax: +91 22 6778 9660
e-mail: investor.relations@tcs.com website: www.tcs.com CIN: L22210MH1995PLC084781

Extract of the audited consolidated interim financial results for the three months and six months ended September 30, 2024 (₹ crore)

	Three months ended September 30, 2024	Six months ended September 30, 2024	Three months ended September 30, 2023
Revenue from operations	64,259	1,26,872	59,692
Profit before tax	16,032	32,263	15,330
Profit after tax	11,955	24,060	11,380
Total comprehensive income for the period	13,016	24,907	11,162
Paid up equity share capital (Face value: ₹1 per share)	362	362	366
Total reserves (including non-controlling interests)*	90,957	90,957	90,840
Earnings per equity share:- Basic and diluted (₹)	32.92	66.20	31.00

* Balances for three months and six months ended September 30, 2024 represent balances as per the audited consolidated balance sheet for the year ended March 31, 2024 and balances for three months ended September 30, 2023 represent balances as per the audited consolidated balance sheet for the year ended March 31, 2023 as required by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Extract of the audited standalone interim financial results for the three months and six months ended September 30, 2024 (₹ crore)

	Three months ended September 30, 2024	Six months ended September 30, 2024	Three months ended September 30, 2023
Revenue from operations	53,990	1,06,834	50,165
Profit before tax	16,589	32,467	14,444
Profit after tax	12,994	25,109	10,929
Total comprehensive income for the period	13,234	25,383	10,861

Notes:

- The audited consolidated financial results and audited standalone financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on October 10, 2024. The statutory auditors have expressed an unmodified audit opinion on these results.
- The Board of Directors at its meeting held on October 10, 2024, has declared an interim dividend of ₹10.00 per equity share.
- The above is an extract of the detailed format of financial results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format for three months and six months ended September 30, 2024, are available on the BSE Limited website (URL: www.bseindia.com), the National Stock Exchange of India Limited website (URL: www.nseindia.com) and on the Company's website (URL: www.tcs.com/investors).

For and on behalf of the Board of Directors

Mumbai
October 10, 2024

K Krithivasan
CEO and Managing Director
DIN: 10106739

(This is an Advertisement for information purposes only and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India and is not an offer document announcement)

CLUB EMERALD EMERALD LEISURES LIMITED

Emerald Leisures Limited ("Company" or "Issuer") was originally incorporated on March 8, 1933 as "Phalitan Sugar Works Limited" and registered under Section 23 of the Indian Companies Act, 1913, as a limited company. Subsequently a fresh certificate of incorporation consequent upon change of name of our Company to "Apte Amalgamations Limited" was issued on June 29, 1982, by Registrar of Companies, Maharashtra, Bombay. Thereafter, the name of our Company was changed to "Emerald Leisures Limited", its current name, and a fresh certificate of incorporation consequent upon name change of our Company was issued on August 30, 2013 by Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai. For details, including reasons for change in the name and registered office of our Company, "General Information" on page 40 of this Letter of Offer.

Registered Office: Club Emerald Sports Complex, Plot No. 366/15, Swastik Park, Near Mangal Anand Hospital, Chembur, Mumbai, Maharashtra - 400 071, India;

Contact Person: Kapil M. Purohit, Company Secretary and Compliance Officer,

E-mail: companysecretary@clubemerald.in; Telephone: +922 25277504

Website: www.clubemerald.in; Corporate Identification Number: L749000MH1948PLC006791

OUR PROMOTERS: JAYDEEP VINOD MEHTA, NIKHIL VINOD MEHTA, JASHWANT BHAI CHAND MEHTA AND CHETAN JASHWANT MEHTA

ISSUE OF UP TO 1,00,12,400 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹12.50/- EACH INCLUDING A SHARE PREMIUM OF 7.50/- PER RIGHTS EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO AN AMOUNT OF UPTO ₹1,251.55 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 2 (TWO) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 1 (ONE) FULLY PAID UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT WAS ON TUESDAY, SEPTEMBER 10, 2024 (THE "ISSUE").

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of our Company thanks all Investors for their response to the Issue, which opened for subscription on Tuesday September 17, 2024, and closed on Monday September 30, 2024, and the last date for On Market Renunciation of Rights Entitlements was Wednesday, September 18, 2024 Out of the total 1160 applications for 1,74,11,540 Rights Equity Shares, 682 Applications for 5,38,340 Rights Equity Shares were rejected due to technical reasons as disclosed in the Letter of Offer. The total number of valid Applications received was 478 for 1,68,73,200 Rights Equity Shares, which was 168.52% of the number of Rights Equity Shares Allotted under the Issue. In accordance with the Letter of Offer and the Basis of Allotment finalized on October 3, 2024, in consultation with BSE Limited ("BSE"), the Designated Stock Exchange, and the Registrar to the Issue.

The Rights Issue Committee of the Company, pursuant to the authority given by the Board of Directors, at their meeting held on October 3, 2024, approved the allotment of 1,00,12,400 fully paid-up Rights Equity Shares to the successful Applicants. In the Issue, no Rights Equity Shares have been kept in abeyance. All valid Applications after the rejection of bids received from non-Eligible Shareholders and technical rejections have been considered for Allotment.

1. The breakup of valid applications received (after the rejection of bids received from non-Eligible Shareholders technical rejections) is given below:

Category	No. of valid applications received	No. of Rights Equity Shares accepted and allotted against Entitlements (A)	No. of Rights Equity Shares accepted and allotted against Additional Rights Equity Shares applied (B)	Total Rights Equity Shares accepted (A+B)
Eligible Equity Shareholders	361	50,49,033	49,33,034	99,82,067
Renounees	117	30,333	0	30,333
Total	478	50,79,366	49,33,034	1,00,12,400

2. Information regarding total Applications received:

Category	Applications Received		Equity Shares Applied for				Equity Shares allotted		
	Number	%	Number	Value (Rs.)	%	Number	Value (Rs.)	%	
Eligible Equity Shareholders	366	31.55	1,56,51,915	19,56,48,937.5	89.89	99,82,067	12,47,75,837.5	99.69	
Fractional Shareholders	1	0.08	500	6,250	0.00	0	0	0.00	
Renounees	117	10.09	12,64,171	1,58,02,137.5	7.26	30,333	3,79,162.5	0.30	
Not Eligible Shareholders	676	58.28	4,94,954	61,86,925	2.84	0	0	0.00	
Total	1160	100.00	1,74,11,540	21,76,44,250	100.00	1,00,12,400	12,51,55,000	100.00	

Information for Allotment/refund/rejected cases: The dispatch of Allotment Advice cum Refund Intimation to the Investors, as applicable, has been completed on October 08, 2024 and Investors who have not provided their email addresses have been physically dispatched to the Indian addresses provided by them has been completed on October 08, 2024. The instructions for unblocking funds in case of ASBA Applications were issued to SCSBs on October 04, 2024.

The listing application was filed with BSE Limited ("BSE" or "Stock Exchange") on October 04, 2024 and subsequently, the listing approvals were received on October 07, 2024 the credit of Rights Equity Shares to the respective demat accounts of the allottees in respect of Allotment in dematerialized form has been completed on October 10, 2024. The trading in Right Equity Shares issued in the Rights Issue shall commence on Stock Exchange upon receipt of trading permission. The trading is expected to commence on or before October 17, 2024. Further, in accordance with the SEBI master circular bearing reference - SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/00094 dated June 21, 2023, the request for extinguishment of Rights Entitlements has been sent to NSDL & CDSL on October 08, 2024.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGE ONLY IN DEMATERIALIZED FORM.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: The Draft Letter of Offer has not been filed with SEBI in terms of SEBI ICDR Regulations as the size of the issue was up to ₹1,251.55 Lakhs. The present Issue being of less than ₹5,000 lakhs, our Company is in compliance with the first proviso to Regulation 3 of the SEBI ICDR Regulations and our Company has filed a copy of the Letter of Offer prepared in accordance with the SEBI ICDR Regulations with SEBI for information and dissemination on the website of SEBI i.e., www.sebi.gov.in.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors are advised to refer to "Other Regulatory and Statutory Disclosures - Disclaimer Clause of the Stock Exchange" on page 98 of the Letter of Offer for the full text of the Disclaimer Clause of BSE Limited.

Unless otherwise specified, all capitalised terms used herein shall have the same meaning ascribed to such terms in the Letter of Offer.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE COMPANY'S BUSINESS PROSPECTS.

REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
 PURVA SHARE REGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED 9, Shiv Shakti Industrial Estate, J.R. Boricha Marg, Lower Parel, Mumbai, Maharashtra - 400 011, India. Telephone: +91 022 4961 4132/ 4970 0138 Email: newissue@purvashare.com Website: www.purvashare.com Investor Grievance E-mail: newissue@purvashare.com Contact Person: Ms. Deepal Dhuri SEBI Registration No.: INR000001112	 Kapil M. Purohit Emerald Leisures Limited Club Emerald Sports Complex, Plot No. 366/15, Swastik Park, Near Mangal Anand Hospital, Chembur, Mumbai, Maharashtra - 400 071, India. Telephone: 022 25277504 E-mail: companysecretary@clubemerald.in Website: www.clubemerald.in

Investors may contact the Registrar to the Issue or our Company Secretary and Compliance Officer for any pre-issue or post-issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the Applicant, contact number(s), e-mail address of the sole/first holder, folio number or demat account, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the Application Forms, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip. For details on the ASBA process, please see the section entitled "Terms of the Issue" on page 116 of the Letter of Offer.

For, EMERALD LEISURES LIMITED

Date: 10th October, 2024

Place: Mumbai

Sd/
Kapil M. Purohit
Company Secretary and Compliance Officer

Disclaimer: Our Company has filed the Letter of Offer with SEBI and the Stock Exchange on September 12, 2024. The Letter of Offer is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the Stock Exchange at www.bseindia.com, the website of our Company at www.clubemerald.in, and the website of the Registrar to issue i.e., Purva Share Registry (India) Private Limited at www.purvashare.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk, please see the section titled "Risk Factors" on page 19 of the Letter of Offer.

This announcement does not constitute an offer of Rights Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and any Rights Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the United States.

FINANCIAL EXPRESS

SHRIRAM
Finance
SHRIRAM FINANCE LIMITED
(Formerly known as SHRIRAM
TRANSPORT FINANCE
COMPANY LIMITED)

PUBLIC NOTICE

This is to inform our customers and public at large that our **Theni - III Branch** located at D.K.S. Tower, Second Floor, Cumbam Main Road, Palani Chetty Pathi, Theni, Tamil Nadu - 630561 will shift to Ground Floor, Survey No: 187/2, Ward No.-24, No: 176 A/3, Cumbam Main Road, Opposite to State Bank of India, Chinnamur, Tamil Nadu - 625515 from 20th January, 2025. The Customers are requested to contact the new office premises for their needs.

REGIONAL BUSINESS HEAD

SHRIRAM
Finance
SHRIRAM FINANCE LIMITED
(Formerly known as SHRIRAM
TRANSPORT FINANCE
COMPANY LIMITED)

PUBLIC NOTICE

This is to inform our customers and public at large that our **Palghat - I Branch** located at Second Floor, Sunshine Complex, Opposite Alukkas Jewellery, T.B. Road, Palakkad, Kerala - 678012 will shift to First Floor and Second Floor, 921/5, 921/6, Maple Arcade, Koppam Road, Near Lions School, Palakkad City, Palakkad, Kerala - 678014 from 17th January, 2025. The Customers are requested to contact the new office premises for their needs.

REGIONAL BUSINESS HEAD

1st floor, Terminal 1, Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport, Santacruz (E), Mumbai - 400 099.

INVITATION TO PARTICIPATE IN BIDDING PROCESS FOR DEVELOPMENT, INSTALLATION, OPERATION, MANAGEMENT AND MAINTENANCE OF ADVERTISING MEDIA AT CSMI AIRPORT

Mumbai International Airport Limited ("MIAL") invites qualified and experience parties to participate in competitive bidding process for development, installation, operation, management and maintenance of advertising media at Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport ("CSMIA"), Mumbai.

The parties can participate by submitting required documents and the requisite fee as specified in the Tender Notice available on following link: csmia.adaniairports.com/Tenders.aspx

Upon payment of prescribed fee and submission of requisite documents, the interested parties shall be provided with access to the RFQ document containing qualification criteria and terms. Interested parties thereafter will have to submit the Application for qualification within the stipulated time period provided in the RFQ document.

Note: MIAL reserves the right to cancel tender process at any time without prior notice or without assigning any reason whatsoever.

SHRIRAM
Finance
SHRIRAM FINANCE LIMITED
(Formerly known as SHRIRAM
TRANSPORT FINANCE
COMPANY LIMITED)

PUBLIC NOTICE

This is to inform our customers and public at large that our **Kushalgarh Branch** located at First Floor, Shreeram Niwas, Near to Police Station, Banswara Road, Tehsil - Kushalgarh, Kushalgarh, Banswara, Rajasthan - 327801 will shift to First Floor, Jai Jinendra Complex, Opposite to Police Station, Banswara Road, Kushalgarh, Banswara, Rajasthan - 327801 from 16th January, 2025. The Customers are requested to contact the new office premises for their needs.

REGIONAL BUSINESS HEAD

SHRIRAM
Finance
SHRIRAM FINANCE LIMITED
(Formerly known as SHRIRAM
TRANSPORT FINANCE
COMPANY LIMITED)

PUBLIC NOTICE

This is to inform our customers and public at large that our **Trivandrum - I Branch** located at TC 46/C-2618, Second Floor, Bharathi Divakar, Karamana P.O, Trivandrum, Kerala - 695001 will shift to Fourth Floor, Capital Centre, Opposite to Government Secretariat, M. G. Road, Statue, Trivandrum, Kerala - 695001 from 16th January, 2025. The Customers are requested to contact the new office premises for their needs.

REGIONAL BUSINESS HEAD

SHRIRAM
Finance
SHRIRAM FINANCE LIMITED
(Formerly known as SHRIRAM
TRANSPORT FINANCE
COMPANY LIMITED)

PUBLIC NOTICE

This is to inform our customers and public at large that our **Mandi Branch** located at First Floor, V.P.O. Gutkar, NH-21, Near Central Bank of India, Tehsil Sardar, Mandi, Himachal Pradesh - 175021 will shift to Second Floor, Village-Chakkar, Near to Milk Plant, Four Line Highway, Gutkar, Mandi, Himachal Pradesh - 175021 from 16th January, 2025. The Customers are requested to contact the new office premises for their needs.

REGIONAL BUSINESS HEAD

SHRIRAM
Finance
SHRIRAM FINANCE LIMITED
(Formerly known as SHRIRAM
TRANSPORT FINANCE
COMPANY LIMITED)

PUBLIC NOTICE

This is to inform our customers and public at large that our **Morbi - I Branch** located at Second Floor, City Market, Vasant Plot, Ravapur Road, Morbi, Gujarat - 363641 will shift to Shop No. F/1,2,3,4, First Floor, Ishan Ceramic Zone, Wing - C 8-A, National Highway, Morbi, Lalpur, Rajkot, Gujarat - 363642 from 17th January, 2025. The Customers are requested to contact the new office premises for their needs.

REGIONAL BUSINESS HEAD

THIS IS PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSE ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF THE STOCK EXCHANGES IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL DISCLOSURE AND REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018 AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS")



ANLON HEALTHCARE LIMITED

Our Company was originally incorporated as 'Anlon Ventures Private Limited', a private limited company under the erstwhile Companies Act, 2013, pursuant to a certificate of incorporation dated November 19, 2013 issued by the RoC. The name of our Company was changed from 'Anlon Ventures Private Limited' to 'Anlon Healthcare Private Limited' and a fresh certificate of incorporation dated May 27, 2015 was issued by the RoC. Our Company was subsequently converted to a public limited company and the name of our Company was changed from 'Anlon Healthcare Private Limited' to 'Anlon Healthcare Limited' and a fresh certificate of incorporation dated September 02, 2024, was issued by the RoC

Corporate Identity Number: U24230GJ2013PLC077543

Registered Office: 101/102, Silvercoin Complex, Opp. Crystal Mall, Kalawad Road Rajkot - 360 005, Gujarat, India

Contact Person: Amita Chhaganbhai Pradaga, Company Secretary and Compliance Officer;

Tel: +91 281 2562538/39 E-mail: cs@anloncro.com; Website: www.anlon.in

OUR PROMOTERS: PUNITKUMAR R. RASADIA, MEET ATULKUMAR VACHANI AND MAMATA PUNITKUMAR RASADIA

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO 1,40,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF ANLON HEALTHCARE LIMITED ("OUR COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SECURITIES PREMIUM OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE ("ISSUE PRICE")) AGGREGATING UP TO ₹ [●] LAKHS ("THE ISSUE"). THE ISSUE WILL CONSTITUTE [●] % OF OUR POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL. THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹ 10 EACH AND THE ISSUE PRICE IS [●] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGER AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF [●] (A WIDELY CIRCULATED ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER), ALL EDITIONS OF [●] (A WIDELY CIRCULATED HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER) AND ALL EDITIONS OF [●] (A WIDELY CIRCULATED GUJARATI DAILY NEWSPAPER, GUJARATI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF GUJARAT, WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED), AT LEAST 2 (TWO) WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/ISSUE OPENING DATE, AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE STOCK EXCHANGES FOR THE PURPOSE OF UPLOADING THEIR RESPECTIVE WEBSITES IN ACCORDANCE WITH THE SEBI ICDR REGULATIONS.

In case of any revision in the Price Band, the Bid/ Issue Period will be extended by at least 3 (three) additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid/ Issue Period not exceeding 10 (ten) Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/ Issue Period for a minimum of 3 (three) Working Days, subject to the Bid/ Issue Period not exceeding 10 (ten) Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/ Issue Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a public notice, and also by indicating the change on the website of the BRLM and at the terminals of the Members of the Syndicate and by intimation to Designated Intermediaries and the Sponsor Bank, as applicable.

This Issue is being made in terms of Rule 19(2)(b) of the SCRR read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations. The Issue is being made for at least 25% of the post-issue paid-up Equity Share capital of our Company. The Issue is being made through the Book Building Process in terms of Regulation 6(2) of the SEBI ICDR Regulations, wherein at least 75% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs" and such portion, the "QIB Portion"), provided that our Company, in consultation with the BRLM, may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors and the basis of such allocation will be on a discretionary basis as decided by our Company in consultation with the BRLM, in accordance with the SEBI ICDR Regulations (the "Anchor Investor Portion"), out of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from the domestic Mutual Funds at or above the price at which Equity Shares are allocated to Anchor Investors ("Anchor Investor Allocation Price"). In the event of undersubscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Category (excluding the Anchor Investor Portion) ("Net QIB Portion"). Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs (other than Anchor Investors), including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. If at least 75% of the Issue cannot be Allotted to QIBs, then the entire application money will be refunded forthwith. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not more than 15% of the Net Issue shall be available for allocation to Non-Institutional Bidders ("NIBs") of which (a) one-third portion shall be reserved for applicants with application size of more than ₹ 2.00 Lakhs and up to ₹ 10.00 Lakhs; and (b) two-thirds portion shall be reserved for applicants with application size of more than ₹ 10.00 Lakhs, provided that the unsubscribed portion in either of such sub-categories may be allocated to applicants in the other sub-category of Non-Institutional Bidders, in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. Further not more than 10% of the Net Issue shall be available for allocation to Retail Individual Bidders ("RIB") in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. All Bidders (except Anchor Investors) are mandatorily required to utilise the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process by providing details of their respective ASBA accounts and UPI ID (defined hereinafter) in case of UPI Bidders (defined hereinafter), as applicable, pursuant to which their corresponding Bid Amount will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs

केनरा बैंक **Canara Bank**

6 कर्जदार नंबर 207 इंडियन कॉम्प्लेक्स पुरानी कोर्टो दिल्ली 110006
फोन- 011-22615032, 8527630603, ईमेल- cb5866@canarabank.com

नीलामी सूचना

विषय: सोने के आभूषणों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

केनरा बैंक कोषधारी शाखा में नोटिस जारी करके कर्जदारों से उनके द्वारा दिए गए गोल्ड लोन की बकाया राशि का भुगतान करने को कहा था। उपायकर्ता राशि चुकाने में विफल रहा। आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार को नोटिस दिया जाता है कि अगोस्ताहरी सोने के आभूषणों की ऑनलाइन नीलामी "जहाँ है जहाँ है", "जो कुछ भी है" के आधार पर बिक्री 18.10.2024 को दोपहर 12:30 बजे से 01:30 बजे तक (बिक्री के समाप्त तक प्रत्येक 5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ) की जाएगी।

कर्जदार का नाम	सकल मूल्य और निवल बचान	निरीक्षण की तिथि- विवरण	ईएमडी बिक्री तिथि- विवरण	ईएमडी खाता नंबर	अंतरिम मूल्य
सुशी किरण कुमारी	सकल- 163,200 व्याज- 145,240	निरीक्षण की तिथि- 11.10.2024 और 15.10.2024	ईएमडी बिक्री तिथि- 25.10.2024	खाता नं. 209272434 IFSC- CNRB0005866	₹. 10,04,000

ईएमडी को 15.10.2024 को शाम 5.00 बजे तक या उससे पहले जमा किया जाना चाहिए। सोने के आभूषणों का निरीक्षण शाखा में पूर्व ऑनलाइन के साथ 11.10.2024 और 15.10.2024 को प्रातः 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच किया जा सकता है। ईएमडी राशि जमा करने के बाद ही आभूषणों के निरीक्षण की अनुमति दी जाएगी।

सोने के आभूषण आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बिके जाएंगे।

किसी भी अन्य विवरण हेतु श्री प्रमथ, मोबाइल नं. 8527630603, प्रबंधक, कोर्टो शाखा दिल्ली, लैंड लाइन नं. 011-22615032, ईमेल- cb5866@canarabank.com, किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान या सेवा प्रदाता मेसर्स ई-प्रोक्लैमेट टेकनॉलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर)- रयान पब्लिकर - 9374519724 से संपर्क करें - 6351896640, 079-35022124/37 / 41 वेबसाइट- https://egold.auctiontiger.net ईमेल आईडी- egold@auctiontiger.net

दिनांक- 10-10-2024, स्थान- दिल्ली, मुख्य प्रबंधक, केनरा बैंक

KVB Karur Vysya Bank

द कर्जदार वैयक्तिक लि. मंडल कार्यालय
नं. 6, 37 तल, मेट्रो लिफ्ट नं. 80 के सामने, एम. रोड,
करोल बाग, नई दिल्ली-110005

मांग सूचना

संदर्भ: 1) में, अमित ट्रेडिंग कम्पनी, अत्यन्त स्वामित्व का फर्म जिसके व्यवसाय का स्थान प्लॉट नं. 2053, दूसरा तल, ख. नं. 240-241, पुराना अनाज मंडी, नरेला, नई दिल्ली-110040 में है, 2) श्री अमित कुमार (प्रॉक्सी) निवासी: गली नं. 7, स्वतंत्रता नगर, नरेला, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली-110040, 3) श्री अमित कुमार (प्रॉक्सी) प्लॉट नं. 2053, दूसरा तल, ख. नं. 240-241, पुराना अनाज मंडी, नरेला, नई दिल्ली-110040 4) श्रीमती गुला देवी (गारंटर), निवासी: मकान नं. 98, आरुण द्विप के सामने, पश्चिम विहार, एक्सटेंशन, पश्चिम विहार, पश्चिम-दिल्ली, दिल्ली-110063 को भेजी गई गई में अमित ट्रेडिंग कम्पनी को ऋण खाता 411422300000076 में बकायी की वसूली के लिये विचार परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सर्फेसी अधिनियम) को धारा 13 (2) के अंतर्गत जारी की गई सूचना।

जैसा कि आपने प्रतिभूत क्रेडिटर बैंक को ऊपर वर्णित ऋण खाते में ऋणों के पुनर्निर्माण में चुक की है जो 24.09.2024 को एमपीए वन चुकी है, बैंक ने 4.10.2024 को सर्फेसी अधिनियम के अंतर्गत सूचना जारी कर आपको रु. 2,03,01,430.00 (रु. दो करोड़ तीन लाख एक हजार चार सौ तीस मात्र) की बकाया राशि के भुगतान का निर्देश दिया था।

सूचना की एक प्रति प्लॉट नं. 2053, दूसरा तल, ख. नं. 240-241, पुराना अनाज मंडी, नरेला, नई दिल्ली-110040 में परिसर में चिपकाई गई है। जैसा कि आप स. 1, 2 एवं 3 को पंजीकृत डाक से भेजी गई सूचना अवरलॉड वायर लॉट आई। एतद्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि ऋण की देवताओं, बैंक के पास प्रभारित प्रतिभूतियों का सम्पूर्ण विवरण नोट करने के लिये अपने स्वयं के हित में बैंक में जाकर सूचना की प्रति प्राप्त करें। एतद्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर 1.10.2024 से भुगतान की तिथि तक ऋण के साथ ऊपर वर्णित राशि का भुगतान करें अन्यथा प्रतिभूत क्रेडिटर बैंक सर्फेसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नीचे वर्णित रूप में बैंक के पास हाइपोथेकेट/ गिरवी प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के प्रवर्तन के अपने अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बाध्य होगा।

प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का संक्षिप्त विवरण

सद स. 1: श्रीमती गुला देवी के नाम में मकान नं. 98, पश्चिम विहार एक्सटेंशन, पश्चिम दिल्ली, दिल्ली-110063, मांग लगान 1914 वर्ग मी. में स्थित सम्पूर्ण आवासीय सम्पत्ति - (भूमि + भवन), पृ. तल, प्रथम तल एवं दूसरे तल के साथ।

सद स. 2: 1. अमित ट्रेडिंग कम्पनी की सम्पूर्ण चालू परिसम्पत्तियाँ
हस्ता- मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी द कर्जदार वैयक्तिक लि.
स्थान: दिल्ली

Samco Asset Management Private Limited

A-1003 Naman Midtown, 10th Floor, Prabhadevi (west), Mumbai 400 013.
Tel: +91 22 4170 8999 | Fax: +91 22 2422 4200
CIN: U65929MH2019PTC334121 | Toll Free No.: 1800 103 4757
Website: www.samcomf.com

NOTICE No. 37/2024

Hosting of Half-yearly Portfolio Statement of the Scheme(s) of Samco Mutual Fund

NOTICE is hereby given to the Investors / Unit Holders of the schemes of Samco Mutual Fund ("SMF") that, in accordance with the provisions of Regulation 59(A) of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with Clause 5.1 of the SEBI Master Circular dated June 27, 2024, the Half Yearly Portfolio Statements of the schemes of SMF for the period ended September 30, 2024, has been hosted on the Fund's website viz., www.samcomf.com and on the website of AMFI viz., www.amfiindia.com. Investors may accordingly view/download the statements from the website of the Fund.

Investors can also request for physical or electronic copy of the Half Yearly Portfolio statements of schemes portfolio, by writing to us at mfasstip@samcomf.com or calling on our toll-free number 1800 103 4757 or by submitting a written request at any of the office points of acceptance of SMF.

For Samco Asset Management Private Limited
(Investment Manager for Samco Mutual Fund)

Place : Mumbai
Date : October 10, 2024

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

CLUB EMERALD EMERALD LEISURES LIMITED

Emerald Leisures Limited ("Company" or "Issuer") was originally incorporated on March 8, 1933 as "Phaltan Sugar Works Limited" and registered under Section 23 of the Indian Companies Act, 1913, as a limited company. Subsequently a fresh certificate of incorporation consequent upon change of name of our Company to "Apte Amalgamations Limited" was issued on June 29, 1982, by Registrar of Companies, Maharashtra, Bombay. Thereafter, the name of our Company was changed to "Emerald Leisures Limited", its current name, and a fresh certificate of incorporation consequent upon name change of our Company was issued on August 30, 2013 by Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai. For details, including reasons for change in the name and registered office of our Company, "General Information" on page 40 of this Letter of Offer.

Registered Office: Club Emerald Sports Complex, Plot No. 366/15, Swastik Park, Near Mangal Anand Hospital, Chembur, Mumbai, Maharashtra - 400 071, India;
Contact Person: Kapil M. Purohit, Company Secretary and Compliance Officer.
E-mail: companysecretary@clubemerald.in | Telephone: +022 25277504
Website: www.clubemerald.in | Corporate Identification Number: L74900MH1948PLC006791

OUR PROMOTERS: JAYDEEP VINOD MEHTA, NIKHIL VINOD MEHTA, JASHWANT BHAICHAND MEHTA AND CHETAN JASHWANT MEHTA

ISSUE OF UP TO 1,00,12,400 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹125.50/- EACH INCLUDING A SHARE PREMIUM OF 7.50/- PER RIGHTS EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO AN AMOUNT OF UPTO ₹1,251.55 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 2 (TWO) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 1 (ONE) FULLY PAID UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT WAS ON TUESDAY, SEPTEMBER 10, 2024 (THE "ISSUE").

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of our Company thanks all Investors for their response to the Issue, which opened for subscription on Tuesday September 17, 2024, and closed on Monday September 30, 2024, and the last date for On Market Renunciation of Rights Entitlements was Wednesday, September 18, 2024. Out of the total 1160 applications for 1,74,11,540 Rights Equity Shares, 682 Applications for 5,38,340 Rights Equity Shares were rejected due to technical reasons as disclosed in the Letter of Offer. The total number of valid Applications received was 478 for 1,68,73,200 Rights Equity Shares, which was 168.52% of the number of Rights Equity Shares Allotted under the Issue. In accordance with the Letter of Offer and the Basis of Allotment finalized on October 3, 2024, in consultation with BSE Limited ("BSE"), the Designated Stock Exchange, and the Registrar to the Issue.

The Rights Issue Committee of the Company, pursuant to the authority given by the Board of Directors, at their meeting held on October 3, 2024, approved the allotment of 1,00,12,400 fully paid-up Rights Equity Shares to the successful Applicants. In the Issue, no Rights Equity Shares have been kept in abeyance. All valid Applications after the rejection of bids received from non-Eligible Shareholders and technical rejections have been considered for Allotment.

1. The breakup of valid applications received (after the rejection of bids received from non-Eligible Shareholders technical rejections) is given below:

Category	No. of valid applications received	No. of Rights Equity Shares accepted and allotted against Entitlements (A)	No. of Rights Equity Shares accepted and allotted against Additional Rights Equity Shares applied (B)	Total Rights Equity Shares accepted and allotted (A+B)
Eligible Equity Shareholders	361	50,49,033	49,33,034	99,82,067
Renouces	117	30,333	0	30,333
Total	478	50,79,366	49,33,034	1,00,12,400

2. Information regarding total Applications received:

Category	Applications Received		Equity Shares Applied for		Equity Shares allotted	
	Number	%	Number	Value (₹.)	Number	Value (₹.)
Eligible Equity Shareholders	366	31.55	1,56,51,915	19,56,48,937.5	89.89	99,82,067
Fractional Shareholders	1	0.08	500	6,250	0.00	0
Renouces	117	10.09	12,64,171	1,58,02,137.5	7.26	30,333
Not Eligible Shareholders	676	58.28	4,94,954	61,86,925	2.84	0
Total	1160	100.00	1,74,11,540	21,76,44,250	100.00	1,00,12,400

Information for Allotment/refund/rejected cases: The dispatch of Allotment Advice cum Refund Intimation to the Investors, as applicable, has been completed on October 08, 2024 and Investors who have not provided their email addresses have been physically dispatched to the Indian addresses provided by them has been completed on October 08, 2024. The instructions for unblocking funds in case of ASBA Applications were issued to SCBSs on October 04, 2024.

The listing application was filed with BSE Limited ("BSE" or "Stock Exchange") on October 04, 2024 and subsequently, the listing approvals were received on October 07, 2024. The credit of Rights Equity Shares to the respective demat accounts of the allottees in respect of Allotment in dematerialized form has been completed on October 10, 2024. The trading in Rights Equity Shares issued in the Rights Issue shall commence on Stock Exchange upon receipt of trading permission. The trading is expected to commence on or before October 17, 2024. Further, in accordance with the SEBI master circular bearing reference - SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/00094 dated June 21, 2023, the request for extinguishment of Rights Entitlements has been sent to NSDL & CDSL on October 08, 2024.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGE ONLY IN DEMATERIALIZED FORM.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: The Draft Letter of Offer has not been filed with SEBI in terms of SEBI (ICDR) Regulations as the size of the issue was up to ₹1,251.55 Lakhs. The present issue being of less than ₹5,000 lakhs, our Company is in compliance with the first proviso to Regulation 3 of the SEBI (ICDR) Regulations and our Company has filed a copy of the Letter of Offer prepared in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations with SEBI for information and dissemination on the website of SEBI i.e., www.sebi.gov.in.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors are advised to refer to "Other Regulatory and Statutory Disclosures - Disclaimer Clause of the Stock Exchange" on page 98 of the Letter of Offer for the full text of the Disclaimer Clause of BSE Limited.

Unless otherwise specified, all capitalised terms used herein shall have the same meaning ascribed to such terms in the Letter of Offer.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE COMPANY'S BUSINESS PROSPECTS.

REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
PURVA SHAREGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED 9, Shiv Shakti Industrial Estate, J.R. Boricha Marg, Lower Parel, Mumbai, Maharashtra - 400 011, India. Telephone: +91 022 4961 4132/4970 0138 Email: newissue@purvashare.com Website: www.purvashare.com Investor Grievance E-mail: newissue@purvashare.com Contact Person: Ms. Deepali Dhruv SEBI Registration No.: INR000001112	Kapil M. Purohit Emerald Leisures Limited Club Emerald Sports Complex, Plot No. 366/15, Swastik Park, Near Mangal Anand Hospital, Chembur, Mumbai, Maharashtra - 400 071, India. Telephone: 022 25277504 E-mail: companysecretary@clubemerald.in Website: www.clubemerald.in

Investors may contact the Registrar to the Issue or our Company Secretary and Compliance Officer for any pre-Issue or post-Issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCBS, giving full details such as name, address of the Applicant, contact number(s), e-mail address of the sole/first holder, folio number or demat account, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCBS where the Application Forms, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip. For details on the ASBA process, please see the section entitled "Terms of the Issue" on page 116 of the Letter of Offer.

Date: 10th October, 2024
Place: Mumbai

For, EMERALD LEISURES LIMITED
Sd/-
Kapil M. Purohit
Company Secretary and Compliance Officer

Disclaimer: Our Company has filed the Letter of Offer with SEBI and the Stock Exchange on September 12, 2024. The Letter of Offer is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the Stock Exchange at www.bseindia.com, the website of our Company at www.clubemerald.in, and the website of the Registrar to issue i.e., Purva Sharegistry (India) Private Limited at www.purvashare.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, please see the section titled "Risk Factors" on page 19 of the Letter of Offer.

This announcement does not constitute an offer of Rights Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and any Rights Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the United States.

बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड
(निवेश प्रबंधक: बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड)

पंजीकृत कार्यालय: बी/204, टॉवर 1, पेरिनसुला कॉम्प्लेक्स, गणतंत्रवा कदम मार्ग, लोअर पारेल, मुंबई 400013, सीआयएन: U65900MH2007FTC173079

सूचना क्र. 04 / 2024 - 25

बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड की योजनाओं के अर्ध-वार्षिक पोर्टफोलियो विवरण के संबंध में प्रकटीकरण:

बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड (फंड) की सभी योजनाओं के निवेशकों/युक्ति धारकों को सूचना दी जाती है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के विनियमन 59ए को सौंपे मुख्य परिषद समय समय पर संशोधित अनुच्छेद 5.1.3 के साथ पंथित है, के अनुसार, 30 सितंबर, 2024 को समाप्त छमाही के लिए फंड की योजनाओं का अर्ध-वार्षिक पोर्टफोलियो विवरण, फंड की वेबसाइट www.boimf.in पर एक एमपी के वेबसाइट www.amfiindia.com पर प्रकाशित किया गया है।

निवेशक हमारे सेवा केंद्र को 1800-103-2263/1800-26676 पर कॉल करके या service@boimf.in पर एक ई-मेल भेजकर या अनांकित धरे पर फंड लिखकर अर्ध-वार्षिक पोर्टफोलियो विवरण की भौतिक प्रति या संपत्ति के लिए अनुरोध कर सकते हैं - प्रमुख - आइक सेवा, बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड, बी/204, टॉवर 1, पेरिनसुला कॉम्प्लेक्स, गणतंत्रवा कदम मार्ग, लोअर पारेल, मुंबई 400 013.

बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए
(बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के लिए निवेश प्रबंधक)

स्थान: मुंबई
दिनांक: 10 अक्टूबर 2024

हस्ता/-
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन हैं, योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को सावधानी से पढ़ें।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

क्षेत्रीय कार्यालय (सेंट्रल)
1398, प्रथम तल, चौदनी चौक,
दिल्ली-110006, दूरभाष: 011-41028985

ई-नीलामी
बिक्री सूचना
(सर्फेसी अधिनियम 2002 के तहत)

1911 से आरंभ लिए "सेन्ट्रल" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

परिशिष्ट - IV - A [नियम 9(1) का प्रावधान देखें] अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के प्रावधानों के साथ पंथित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक/सांकेतिक कब्जा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्रतिभूत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, नीचे वर्णित कर्जदार(रों) तथा जमानती(यों) से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बकायों की वसूली हेतु उसकी बिक्री 29.10.2024 को "जहाँ है जैसा है", "जो कुछ भी है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" आधार पर की जाएगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि (ईएमडी) सम्बद्ध सम्पत्तियों के विवरणों के सम्बद्ध प्रदर्शित है। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया www.centralbankofindia.co.in अथवा ebkgray.in में प्रावधानित लिंक देखें।

29.10.2024 को नीलामी की जाने वाली सम्पत्तियों का विवरण (15 दिवसीय सूचना)

क्र. सं.	शाखा का नाम	अधिकृत प्राधिकारी/या प्र.	खातों का नाम	सम्पत्ति का विवरण तथा स्वामी का नाम	मांग सूचना की तिथि एवं बकाया राशि (रु. लाख में)	बिक्री की तिथि एवं प्रकार	अंतिम मूल्य/इच्छित मूल्य
1.	नरेला नई दिल्ली	श्री अजय शर्मा मोबाइल: 9711196480	मैसर्स एस एस एंटरप्राइजेज (मालिक श्री प्रथम सुन्दर शर्मा)	प्लॉट नंबर 2420 ए, दाई मंजिला इमारत में छत के अधिकार के साथ पहली मंजिल, प्लॉट नंबर 2, मुख्य बवना रोड, मण्डी एक्सटेंशन नरेला दिल्ली-110040। (राम मंदिर के सामने) क्षेत्रफल - 1566 वर्ग फीट मालिक- नाम सावित्री देवी पत्नी श्री राजेश प्रसाद	₹. 347.83 लाख + ब्याज + अन्य प्रभार	06.07.2023 (भौतिक कब्जा)	₹ 82,00,000/- ₹ 8,20,000/- ₹ 20,000/-
2.	नरेला नई दिल्ली	श्री अजय शर्मा मोबाइल: 9711196480	मैसर्स एस एस एंटरप्राइजेज (मालिक श्री प्रथम सुन्दर शर्मा)	प्लॉट नंबर 2420 ए, दाई मंजिला इमारत में बिना छत के अधिकार के भूखण्ड पर (तीन डुकानें - I से VI), प्लॉट नंबर 2, मुख्य बवना रोड, मण्डी एक्सटेंशन नरेला दिल्ली-110040. (राम मंदिर के सामने) क्षेत्रफल 558 वर्ग फीट मालिक- नाम सावित्री देवी पत्नी श्री राजेश प्रसाद	₹. 347.83 लाख + ब्याज + अन्य प्रभार	06.07.2023 (भौतिक कब्जा)	₹ 51,00,000/- ₹ 5,10,000/- ₹ 20,000/-
3.	नरेला नई दिल्ली	श्री अजय शर्मा मोबाइल: 9711196480	मैसर्स एस एस एंटरप्राइजेज (मालिक श्री प्रथम सुन्दर शर्मा)	मकान नंबर 2357- टी/4, (दो मंजिला आवासीय भवन) शिवाजी नगर, सखी मंडी के पास, नरेला, दिल्ली-110040। क्षेत्रफल 240 वर्ग मज. मालिक का नाम- राजेश प्रसाद सुपुत्र श्री जयवीर चन्द	₹. 347.83 लाख + ब्याज + अन्य प्रभार	06.07.2023 (भौतिक कब्जा)	₹ 1,26,00,000/- ₹ 12,60,000/- ₹ 20,000/-
4.	मिजाओ नई दिल्ली	श्री वरुण कुमार मोबाइल: 8968475336	अशोक कुमार मुन्ना	प्लॉट नंबर जी-99 एवं जी-99ए, दूसरी मंजिल (सामने की ओर), फ्लैट नंबर एस-1, बिना छत के अधिकार के, (इमारत जिसे राम कुपाल बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है), पालम एक्सटेंशन, सेक्टर-7, हारका, नई दिल्ली-110045. क्षेत्रफल 720 वर्ग फुट (80 वर्ग मज) मालिक का नाम- अशोक कुमार मुन्ना पुत्र श्री भगवान शश	₹. 33.01 लाख + ब्याज + अन्य प्रभार	01.04.2024 (भौतिक कब्जा)	₹ 30,00,000/- ₹ 3,00,000/- ₹ 20,000/-

ई-नीलामी की तिथि: 29.10.2024, समय: 12:00 बजे दोपहर से 04:00 बजे रात तक 10 मिनट के स्वतः विस्तार सहित

ईएमडी तथा दस्तावेज (ऑनलाइन) जमा करने की अंतिम तिथि तथा समय: 29.10.2024 को 04:00 बजे अप. तक। संविदाकार वेबसाइट: ebkgray.in पर पंजीकरण करेंगे तथा केवाईसी दस्तावेज जमा करेंगे और सेवा प्रदाता द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के बाद एनईएफटी/आरटीजीएस/ ट्रांसफर/ (ebkgray.in) से चालान उत्पन्न करने के माध्यम से Ebkgray ईएमडी बॉलेट में जमा करना होगा। नीलामी सामान्य लॉन्ग फ्लेटफॉर्म ई-बिक्रि पोर्टल (<http://ebkgray.in>) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। ई-नीलामी "जहाँ है जैसा है", "जो है वही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" आधार पर आयोजित की जाएगी। (सम्पत्ति के अन्य सभी शुल्क/बकाया केला द्वारा बहन किए जाएंगे) विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट: www.centralbankofindia.co.in अथवा नीलामी प्लेटफॉर्म (<http://ebkgray.in>) में प्रावधानित लिंक देखें। Ebkgray हेल्पलाइन नं.: +91 8291220220, ई-मेल: support.ebkgray@psballiance.com

सर्फेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9(1) के तहत उप वैधानिक 15 दिन की बिक्री सूचना

कर्जदार/ जमानतियों/ बंधककर्ताओं को एतद्वारा ई-नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज एवं अनुपनीत व्ययों सहित उपयुक्त राशि अदा करने के लिये अधिसूचित किया जाता है जिसमें असफल होने पर सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागतों सहित वसूल किया जाएगा।

दिनांक: 10.10.2024
स्थान: दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, से. का. दिल्ली (सेंट्रल), चौदनी चौक, दिल्ली

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
Union Bank of India

भारत सरकार का उपक्रम
एसएएम शाखा लखनऊ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, द्वितीय तल, शारदा टॉवर, कपूरथला, अलीगंज, लखनऊ - 226024, उत्तर प्रदेश
ई-मेल: ubin0578720@unionbankofindia.bank

ई-नीलामी बिक्री सूचना (सर्फेसी अधिनियम के अन्तर्गत)

प्रतिभूतिकरण (प्रवर्तन), 2002 के नियम 8(6) के उपर्युक्त संपत्तियों वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी बिक्री नोटिस।

सर्वसाधारण को विशेषकर ऋणियों एवं जमानतदारों को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियाँ प्रतिभूतिकरण के रूप में हमारे बैंक के पास वसूल कर / बंधक है जिसका सांकेतिक/भौतिक कब्जा यूनियन बैंक के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा ले लिया गया है। का वित्तीय दिनांक 13.11.2024 (समय: दोपहर 12 बजे से सायं 05 बजे तक) को होने वाली ई-नीलामी में "जहाँ है", "जैसा है", "जो कुछ भी है" और बिना किसी सहारे के आधार पर नीचे वर्णित ऋणियों एवं जमानतदारों से सम्बन्धित उनकी देनदारी की वसूली के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (सुरक्षित लेनदार) के द्वारा किया जाएगा। आरक्षित धनराशि एवं ईएमडी राशि नीचे वर्णित है।

ऑनलाइन ई-नीलामी के माध्यम से वेबसाइट: <http://www.ebkgray.in> (PSB Alliance Pvt. Ltd.), नीलामी की तिथि व समय: 13.11.2024, समय: दोपहर 12 बजे से सायं 05:00 बजे (10 मिनट के असीमित अतिरिक्त समय सहित)

क्र. सं.	ऋणी/जमानतकर्ता का नाम व पता	ई-नीलामी हेतु सम्पत्ति का विवरण	1. आरक्षित धनराशि 2. ई.एम.डी. 3. बंधी हुई धनराशि	1. संपत्ति के निरीक्षण हेतु तिथि एवं समय 2. प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं सम्पर्क सूत्र 3. ई-मेल आईडी 4. वसूली अधिकारी/सम्पर्क	व्याज एवं अन्य खर्च के साथ बकाया धनराशि	मार का विवरण सांकेतिक/भौतिक कब्जा
1.	1. श्री अमित शर्मा पुत्र श्री सुंदर लाल शर्मा, मकान नं. 59-711 ईडब्ल्यूएस योजना सं. 2 आवास विकास, हंसपुर, नौबस्ता, कानपुर नगर-208021 (श्रेणी) 2. श्री चारुल शर्मा पुत्र श्री सुंदर लाल शर्मा, मकान सं. 59-711 ईडब्ल्यूएस योजना सं. 2 आवास विकास, हंसपुर, नौबस्ता, कानपुर नगर-208021 (सह-ऋणी) 3. श्री सुमन लता शर्मा पत्नी श्री सुंदर लाल शर्मा, मकान सं. 59-711 ईडब्ल्यूएस योजना सं. 2 आवास विकास, हंसपुर, नौबस्ता, कानपुर नगर-208021 (जमानतकर्ता)	श्रीमती सुमन लता शर्मा पत्नी श्री सुंदर लाल शर्मा के स्वामित्व में मकान सं. 59-711, ईडब्ल्यूएस योजना सं. 2 आवास विकास, हंसपुर, नौबस्ता, कानपुर नगर-208021, क्षेत्रफल 70.148 वर्ग मीटर, चौधदूरी: पूर्व: मकान सं. 59-734, पश्चिम: मकान सं. 59-231, उत्तर: 6.00 मीटर चौड़ी सड़क एवं मकान सं. 59-712, दक्षिण: मकान सं. 59-736 एवं 737.	1. ₹ 43,00,000/- 2. ₹ 4,30,000/- 3. ₹ 43,00,000/-	1. प्राधिकृत अधिकारी से विमर्शानुसार 2. श्री राजीव कुमार वर्मा-8584884263 3. ubin0578720@unionbankofindia.bank 4. श्री हर्ष वर्मा सक्सेना- 8411850742	₹ 22,77,668.06 (रूपये बाईस लाख सत्तर हजार अठार सौ अठसठ एवं पचास मात्र) + धारा 13(2) के तहत एवं उदाहरण ब्याज, शुल्क एवं लागत	प्राधिकृत अधिकारी को संज्ञान नहीं सांकेतिक कब्जा
2.	1. श्रीमती प्रियंका गुप्ता पत्नी श्री मनोज सिंह यादव, निवासी मकान सं. 145 एमआईडी ब्लॉक-बी, स्कीम सं. 38, लखनपुर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश 2. श्री मनोज सिंह यादव पुत्र श्री बालक राम यादव, निवासी मकान सं. 145 एमआईडी ब्लॉक-बी, स्कीम सं. 38, लखनपुर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश	श्रीमती प्रियंका गुप्ता पत्नी श्री मनोज सिंह यादव एवं श्री मन				

